

सुण लो नी साँचा वेण भीष्म राजा सोरठ भजन लिरिक्स



सुण लो नी साँचा वेण भीष्म राजा,

दोहा – रागन में सोरठ बड़ी,
तो भोजन में बड़ी खीर,
नाम बड़ो श्री राम को,
प्रभु स्नान बड़ो गंगा तीर।
वह सोरठ एक नार थी,
आ सोरठ एक राग,
उन रटिया दुख उपजे,
इन भजिया उपजे वैराग।
भूल कबु न कीजिये और,
चार पुरुषां को संग,
रोगी भोगी ओर जुहारी,
पतंग मांजी उदंग।

सुण लो नी साँचा वेण भीष्म राजा,
सुण लो जी साँचा वेण।bd।

ऐ पांडव हमारा मैं पांडवा रो रे,
अर्जुन म्हारो साँचो शेण,
भीष्म राजा सुण लो जी साँचा वेण।bd।

ओ द्रोपदी रो सीर दुशासन खिजियो रे,
ऐ वर्जियो नी बुद्धा ढेण,
भीष्म राजा सुण लो जी साँचा वेण।bd।

राजा दुर्योधन अंधो रो अंधो रे,
ऐ फूटा रे विणरा नेण,
भीष्म राजा सुण लो जी साँचा वेण।bd।

गांधारी रो पूत एक नही राखू रे,
ओ राखु नही पाणी रेण,
भीष्म राजा सुण लो जी साँचा वेण।bd।

समस्त भजनों के लिरिक्स और विडियो बिना इन्टरनेट के भी अपने मोबाइल में देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल एप्प स्टोर से 'भजन डायरी एप्प' जरूर इनस्टॉल करे। वेबसाइट - <https://www.bhajandiary.com>



पदम् भणे पण पाय लागू रे,
भगतो को सुख देण,
भीष्म राजा सुण लो जी साँचा वेण।bd।

सुन लो नी साँचा वेण भीष्म राजा,
सुण लो जी साँचा वेण।bd।

गायक – श्याम दास वैष्णव जी।

प्रेषक – पुखराज जी पटेल।

9784417723
